FINANCIAL EXPRESS

punjab national bank 😉 पंजाब नैशनल बैंक CIRCLE OFFICE, SANDEEP CHATHA COMPLEX, KURUKSHETRA - 136118 Ph. 01744-224654

OFFICE OF NAIB TEHSILDAR AMBALA CUM DUTY MAGISTRATE The District Magistrate AMBALA has appointed the undersigned as Duty Magistrate vide its order Endst No. 2005-2007/Peshi dated 21.07.2022 given u/s 14 SARFAESI Act 2002 for TAKING POSSESSION OF SECURED ASSETS MORTGAGED IN NON PERFORMING LOAN ACCOUNT OF M/S SAINI STEEL SHUTTERING STORE, VILLAGE SIRASGARH, TEHSIL BARARA, DISTRICT AMBALA AND SH. PAWAN KUMAR SAINI S/O SH. MAHINDER SINGH (PROPRITOR) VILLAGE DHEEN, TEHSIL BARARA, DISTRICT AMBALA FROM PUNJAB NATIONAL BANK DOSARKA, AMBALA as per details given below:

DETAIL OF PROPERTY

Equitable mortgage of property measuring 29.69 Marla comprised in Khewat/Khatoni No. 354/366, Khasra No. 77, 297/1250 share in Rakba 6K-5Marla i.e. 29.69 Marla situated at Village Sirasgarh H.B No. 140, Tehsil Barara, District Ambala Regd. at Sr. No. 928/1 dated 29.09.2011 in the Name of Pawan Kumar s/o Mahinder Singh.

Through this notice I call upon Borrowers/Guarantors to peacefully hand over possession of the Assets Mortgaged for securing loan(s) as detailed above within 15 days from the date of publication of this notice, failing which physical possession shall to be taken by use of such force as may be required thereafter on any working day without any further notice. Dated: 10.08.2022 CIRCLE HEAD

ENTRY INDIA PROJECTS PRIVATE LIMITED Regd. Office: D-55, Defence Colony, New Delhi-110024 CIN: U45400DL2008PTC173053, Email: contact@eippl.com UN-AUDITED QUARTERLY FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022 [Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 SEBI (LODR Regulations)] (Rs. in 1000 except per share data & ratios

| Si No. | Particulars | Qtr. ending (June 30, 2022) | Previous year ended March, 2022 |
|-----------|--|--------------------------------------|---|
| 1. | Total Income from Operations | 13,706 | 47,856 |
| 2. | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) | (4,619) | 36,027 |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | (4,619) | 36,027 |
| 4. | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | (4,619) | 25,521 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (4,619) | 1,36,060 |
| 6. | Paid up Equity Share Capital | 15,531 | 15,531 |
| 7. | Other Equity | 9,54,254 | 9,58,873 |
| 8. | Net worth | 7,59,687 | 7,64,307 |
| 9. | Paid up Debt Capital / Outstanding Debt | 4,45,343 | 4,48,830 |
| 10. | Outstanding Redeemable Preference Shares | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Debt Equity Ratio | 0.59:1 | 0.59:1 |
| 12. | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted: | (2.97) (1.88) | 16.43 |
| 13. | | (1.00) N.A | N.A |
| | SECTION AND A SECTION AND A SECTION ASSOCIATION ASSOCI | 0.5550 | |
| 14. | | N.A | N.A |
| 15. | TO CONTROL OF A CONTROL OF THE CONTR | 0.14 | 0.11 8.86 |
| No | Interest Service Coverage Ratio | 0.24 | 0.00 |

ended on 30.06.2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly un-audited financial results for the quarter ended on 30.06.2022 are available on the websites of the Stock Exchange(s and the listed entity. (www.eippl.com). The above financial results were reviewed and recommended by the Board of Directors at their

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly un-audited financial results for the quarter

meetings held on 10.08.2022. The company is primarily engaged in the business of carrying on the business of construction of residential houses, commercial buildings, flats and buildings etc. and other allied activities. All the

activities of the Company revolve around the primary business, as such there are no separate

The Limited Review Report of the same has been carried out by the statutory auditor of the Company. Figures for the previous periods / years have been regrouped / reclassified, wherever necessary t correspond with the current period /years classification / disclosure.

Formulae for computation of ratios are as follows: (a) Debt/Equity ratio: Debt/Equity. Debt represents borrowings. Equity includes Equity Share Capita and Other Equity excluding Revaluation Reserve.

(b) Debt Service Coverage Ratio: Profit/(Loss) Before Interest and Tax/(Interest Expenses Principal Repayment of borrowings made during the period/year).

(c) Interest Service Coverage Ratio: Profit/(Loss) Before Interest and Tax/Interest Expenses. (d) Net Worth: Total Equity excluding Other Comprehensive Income, Revaluation Reserve and

reserves created out of amalgamation.

Note: The Entity does not have corresponding previous year quarterly financial results for December 2020, hence the column on corresponding figures for such quarters is not applicable

For Entry India Projects Private Limited

Madhay Dhir Place: New Delhi Date: 10.08.2022 DIN: 07227587

Oriental TRIMEX LIMITED

CIN: L74899DL1996PLC078339 Regd. Office: 26/25, Bazar Marg, Old Rajendra Nagar, New Delhi-110060 Tel:011-45048612, Fax: 011-25752007, Website: www.orientaltrimex.com Email: info@orientaltrimex.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) DATED AUGUST 05, 2022 TO BE HELD ON AUGUST 29, 2022 AT 12.00 P.M. THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS We draw the attention of all the Members of Oriental Trimex Limited ("Company") to the Notice dated

August 5, 2022 convening the Annual General Meeting of the Company ("AGM") which is to be held on Monday, August 29, 2022 at 12:00 PM (IST) through video conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") This corrigendum shall form an integral part of the Notice dated August 5, 2022, circulated to the Members of the Company and should be read in conjunction with the notice. . Please take note of the following inadvertent omission in Point no. IV of Explanatory Statement

In the Explanatory Statement pursuant to Section 102 to the Notice, additional line shall be added to Point no. IV of Item No. 4 & 5 (To Offer, Issue and Allot Equity Shares on Preferential Basis and Issue of warrants on Preferential basis) as follows: Pursuant to Regulation 166A of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements)

Regulations, 2018, the Valuation Report from the Registered Valuer, MsAstha Gupta Registered Valuer - Securities or Financial Assets having Regn. no. IBBI/RV/06/2020/13096, is available on the website of the Company www.orientaltrimex.com. Members are requested to note the additional Item No. 6 of the AGM Notice and the

Explanatory Statement Item No. 6:

to Item No. 4 & 5 of the Notice.

The approval of the Members is sought in terms of Sections 13, 61, 64 and other applicable provisions, if any, of the Act, to increase the Authorised Share Capital as well as to after the Capital Clause of the Memorandum of Association of the Company. Members are required to note that the draft of the altered Memorandum of Association of the Company shall be made available on the website of the Company (i.e. www.orientaltrimex.com), to facilitate online inspection by the Members upto the date of the Annual General Meeting. The Board is of the opinion that the Resolution at item No. 6 of the accompanying Notice is in the best interest of the Company and its Members and hence, recommends the Resolution for approval by the Members of the Company, by way of an Ordinary Resolution. None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their respective relatives are concerned or interested, financial or otherwise, in the resolution set out at Item no. 6, except to the extent of

www.orientaltrimex.com and also, and on the website of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. All the concerned Members, stock exchanges, depositories, registrar and share transfer agent. the agency appointed for e-voting, the scrutinizer and other authorities and all other concerned

persons are requested to take note of the above. All other contents of the aforesaid Notice shall

The said corrigendum shall be ratified in the ensuing Annual General Meeting.

Rajesh Kumar Punia Managing Director DIN: 00010289

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT SHARE CERTIFICATE(S) NO. 26671 FOR 500 EQUITY SHARES OF RS. 1012/- (RUPEES 506000/- ONLY) EACH BEARING DISTINCTIVE NOS 3417131 TO 3417380 AND 90268791 TO 90269040 OF DCM SHRIRAM LIMITED, REGISTERED IN THE NAME OF DHARAM PAL ARORA AND MANISH PAL ARORA HAS/HAVE BEEN LOST HAS/HAVE APPLIED TO THE COMPANY TO ISSUE DUPLICATE CERTIFICATE(S).

ANY PERSON WHO HAS/HAVE ANY CLAIM IN RESPECT OF THE SAID SHARES CERTIFICATE(S) SHOULD LODGE SUCH CLAIM WITH THE COMPANY AT ITS REGISTERED OFFICE World Mark 1, 2" Floor (West Wing) Aerocity New Delhi-110037, WITHIN 15 DAYS OF THE PUBLICATION OF THIS NOTICE, AFTER WHICH NO CLAIM WILL BE ENTERTAINED AND THE COMPANY WILL PROCEED TO ISSUE DUPLICATE SHARE CERTIFICATE(S).

PUBLIC NOTICE (LOST AND FOUND)

It is informed that the title document(s) which was/were deposited with State Bank of Travancore, Branch Tilak Nagar/Subhash Nagar vide Housing Loan A/c No. 67058857552 in original, which was subsequently migrated to State Bank of India, RACPC, Naraina, New Delhi, is/are not traceable within the Bank premises. The Bank hereby informed/ declare those property documents as misplaced non traceable and did not find it inspite of all sincere efforts. The details of misplaced Original title documents are as under: (1) ORIGINAL Sale Deed dated 28.05.2008 executed by Smt. Naina Nagi wife of Shri Pawan Nagi in favor of Shri Jitendra Chaudhary son of Shri Digambar Chaudhary in respect of property at: Second Floor with roof/ Terrace nights of built up property bearing Plot No. D - 18 A, towards western Side admeasuring 75 sq yds i.e. 62.71 sq mtrs, out of Khasra No. 83/ 4 & 88/24, situated in the revenue estate of Village Hastsal Delhi estate Delhi, area abadi known as colony Bal Udyan Road, D-Bock Uttam Nagar, New Delhi-110059, duly registered vide Regd. No. 12496, Book No. I, Vol. No. 16062, Pages 109-118, dated 28.05.2008, is/are not traceable in original and informed as missing. The above said original documents is/are misplaced/ Not traceable by the Bank and did not find it inspite of all sincere efforts. An online missing complaint/ NCR/LR is registered with Delhi Police, PS Crime Branch vide LR No. 679402/2022, dated 10.08,2022. If anybody found the above mentioned all or any documents please immediately inform/return it to the undersigned on the above mentioned address. Any misuse of the any or all said document will liable to be prosecuted under the extant provisions of law ASST, GENERAL MANAGER.

State Bank of India Branch: RACPC, Ground Floor, C-59, Community Centre,

Date: 10.08.2022

Naraina Industrial Area Phase-I. New Delhi-110028; Email id: sbi.50792@sbi.co.in

NORTHERN RAILWAY INVITATION OF TENDERS THROUGH

E-PROCUREMENT SYSTEM Tender Notice No. 35/2022-2023

Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and on behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for supply of the following items:-

| S. N. | Tender No. | Brief Description | Qty. | Closing Date |
|----------|------------|---|------------|-----------------|
| 1 | 06221135 | M.S. FLAT SIZE 40X6 MM | 108268 KGS | 05.09.2022 |
| 2 | 07221149 | DOUBLE ACTING HYDRAULIC SHOCK ABSORBER | 952 Nos. | 24.10.2022 |

NOTE -1. Vendors may visit the IREPS website i.e. www.ireps.gov.in for details No Manual offer will be entertained.

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

The Federal Bank Ltd. FEDERAL BANK Your Perfect Banking Partner Ground Floor D-15 Prashant Vihar Rohini Sec-14 Delhi-110085 Regd. Office. Alwaye, Kerala NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

in the branch on or after 26/08/2022 as shown below:

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Omaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be put for sale

| BRANCH/VENUE | Name | Account Number |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| The Federal Bank Ltd. | SHEKHAR SHARMA | 14746400000230 |
| Ground Floor D-15 | AKASH KOHLI | 14746100019001 |
| Prashant Vihar Rohini | YASHPAL SHARMA | 14746100031840 |
| Sec-14 Delhi-110085 | MALVIKA SHARMA | 14746100032301 |
| | REENA GABA | 14746100034042 |
| Place: DELHI | | Branch Manager, |

(The Federal Bank Ltd.) Date: 11.08.2022

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES O Indian Overseas Bank (Under Provision to Rule 815) of Security Interest (Enforcement) Rules) ASSET RECOVERY MANAGEMENT BRANCH

Rachna Building, 4th Floor, 2, Rajendra Place, Pusa Road, New Delhi-110008, Ph.: 011-25758124, Email: iob1997@iob.in E-Auction Sale Notice for Sale of immovable Assets under the Securifisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowen's) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged? harged to Indian Diversass Bank, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Overseas Bank, will be sold on "As is where is", "As: is what is" and "Whatever there is" basis as per details mentioned hereunder;

Reserve Price Date of Austion Names of Barrowers Amount Due To Description of the Immovable Property

| Names of Guarantors | Indian Overseas Bank | Known Encumbrances II Any | Passessien | Earnest Money Deposit Bid Increment Amount | Last Date for submission of 880 |
|---|-------------------------------|--|------------|---|------------------------------------|
| M/s Alpine Minmetals India Pvt. Ltd. | Rs. 125,83,04,356 as on | Let 1-Commercial property situated at PC 01 Second Floor Ansal Plaza, Palam Viter, Surgaon owned by Gagan Shukla Ansa 2508 Sq.P1 (Property ID: 108A1997ALPIFCD1) | | Lot-1 Rs. 150.51 Lacs Lot-2 Rs. 142.23 Lacs Lot-3 Rs. 363.82 Lacs | 25.08.2022 |
| 1. Shri Gagan Shukta S/o Br. Ashok Shukta | 14.10.2012 | h further interest Plaza , Palam Vilhar, Gurgann owned by Gagan Shukla Area 2767 Sq. Pt. | PHYSICAL | Lat-1 Rs. 15.85 Lacs Lat-2 Rs. 14.22 Lacs Lot-3 Rs. 38.38 Lacs | 24.08.2022 |
| 2. Sml Kalyani Shukta W/s Shri Gagan Shukta | | Let 3- Commercial property situated at FC 00, Second Floor Ansal Plaza, Palam Vilhar , Gurgaon owned by Gagan Shukia Ansa 7078 Sq. ft. (Property ID: 108A1987ALPRECCO) | | Rs. 25,000i- for Each Let Bid Increment | |
| | | *Mote: All the properties mentioned in Let 1, Let 2, Let 3 are combined at the same floor, hence it is suggested to purchase all the three organizes by the same have: | | Contact Person I | in & Name |

 Wherever applicable, the Reserve Prior is inclusive of 1.00% Tax under Sec. 194 (IA) of IT Act. *Submission of ENO starts from 89.08.2022. It is preferable that the interested bidder may start the bid with reserve price along with at least one bid multiplier increment.

 For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on Indian Overseas Bank's website i.e. www.icb.in (https://www.icb.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E_Auction) or https://ibapi.in

This reav also be treated as a Motice under rule-8(6) (Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2000 to the benower's and guarantical involgagors of the said loan about holding of e-auction on the above mentioned date

Place: New Delhi Date: 09.08.2022 Authorised Officer, Indian Overseas Bank

AASHRIT CAPITAL LIMITED CIN: L65923DL1972PLC317436 Regd. Office: Select City Walk, 6th Floor, A-3, District Centre, Saket, New Delhi-110017

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30.06.2022

| Regulations, 2018, the Valuation Report from the Registered Valuer, MsAstha Gupta, | | The second of th | | | | (Rs in lakh) |
|---|------|--|--|--|--|---|
| Registered Valuer - Securities or Financial Assets having Regn. no. IBBI/RV/06/2020/13096, is available on the website of the Company www.orientaltrimex.com. Members are requested to note the additional Item No. 6 of the AGM Notice and the Explanatory Statement attached thereto as under:- Special Business: | P | articulars | 3 Months Ended 30.06.2022 Unaudited | Preceeding 3 Months Ended 31.03.2022 Audited | Correspoding 3 Months Ended in previous year 30.06.2021 Unaudited | Previous Year Ended On 31.03.2022 Audited |
| | 1 | Total income from operations | | | | 2100011501 |
| Approval for increase in authorized share capital and consequential amendment in | -11 | (net) | 232.75 | 415.14 | 209.48 | 1,003.45 |
| Memorandum of Association (MOA) | 2 | Profit / (Loss) for the period | 202.10 | 910.19 | 200.40 | 1,000.40 |
| To consider and if thought fit to pass, with or without modification, the following as an ordinary resolution: | | (before Tax, Exceptional and/or Extraordinaryitems) | 55.92 | 39.61 | 49.66 | 165.90 |
| | 2 | Profit/(Loss) for the period | 55,92 | 39.01 | 49,00 | 100.90 |
| "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of section 61(1)(a), 64 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification (s) or re- | 3 | before tax (after Exceptional | 55.00 | 20.04 | 10.00 | 405.00 |
| enactment thereof, for the time being in force) and the relevant rules framed thereunder and in | 100 | and/or Extraordinary items) | 55.92 62.33 | 39.61 43.42 | 49.66 48.99 | 165.90 172.31 |
| accordance with the applicable provisions of the Articles of Association of the Company, the | 4 | Net Profit/(Loss) for the period | 62.33 | 43.42 | 48.99 | 1/2.31 |
| consent of the Members be and is hereby accorded to increase the Authorized Share Capital of the Company from Rs. 30,00,00,000/- (Rupees thirty crores only) divided into 3,00,00,000 (three crore) equity shares of Rs. 10/- (Rupees ten only) each to Rs. 70,00,00,000 /- (Rupees seventy | 0 | Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 62.33 | 43.42 | 48.99 | 172.31 |
| crore) divided into 7,00,00,000 (seven crore) equity shares of Rs. 10/- (Rupees ten only) each, | 6 | Paid-up equity share capital | 77,500 | - 19810 | W15-5 | - 8772070 |
| RESOLVED FURTHER THAT pursuant to the provisions of section 13 and all other applicable | 100 | (11202540 equity shares of | 5000000000 | 2000000023 | | 20203596 |
| provisions of the Companies Act, 2013 and the relevant rules framed thereunder, the Capital | | Rs. 10) | 1,120.25 | 1,120.25 | 1,120.25 | 1,120.25 |
| Clause (Clause V) of the Memorandum of Association of the Company is substituted with the following Clause V. "The Authorized Share Capital of the Company is Rs. 70,00,00,000 /- (Rupees seventy crore only) divided into 7,00,00,000 (seven crore) equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each." | 7 | Earnings Per Shares (EPS) (for continuing and discontinued operations a) Basic b) Diluted | 0.06 0.06 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.15 0.15 |
| RESOLVED FURTHER THAT any Director of the Company be and is hereby authorized to do | - | | SEGMENT RE | PORTING | | |
| all such acts, deeds, things and matters and to sign such other documents and file such forms | 1 | Segment Revenue | | | | |
| as may be necessary and expedient to give effect to the aforesaid resolution including but not | 1 | a) Segment-NBFC | 232.75 | 415.14 | 201.37 | 995.34 |
| limited to filing forms with the respective authority." | | b) Segment- Real Estate c) Unallocated | - 3 | | | 8.11 |
| Explanatory Statement | | Total | 232.75 | 415.14 | 201.37 | 1,003.45 |
| | | Less: Inter Segment Revenue | 202.70 | 188 | 201.01 | 1,000.40 |
| Item No. 6: | | Gross Revenue | 232.75 | 415.14 | 201.37 | 1,003.45 |
| The present Authorised Share Capital of the Company is 30,00,00,000 (Rupees Thirty Crores) | 2 | Segment Results | | | | |
| and the paid up share capital of the Company is 28,51,52,080 (Rupees Twenty Eight Crore | | a) Segment-NBFC | 55.92 | 39.61 | 49.66 | 152.80 |
| Fifty One Lac Fifty Two Thousand Eighty). Your Company is contemplating to issue equity | | b) Segment- Real Estate | () (+) | | (+) | |
| shares and warrants on a preferential basis. The current unused authorized capital not being | - | c) Unallocated | 3,000 | | 100000 | |
| sufficient for the proposed issuance, the capital clause of the Memorandum of Association | | Profit/Loss Before Tax | 55.92 | 39.61 | 49.66 | 152.80 |
| ("MOA") needs to be amended to that effect. | 3 | Segment Assets a) Segment-NBFC | 17,614,63 | 17,367.61 | 17,555,10 | 17,367.61 |
| It is therefore proposed to increase the Authorised Share Capital of the Company from | | b) Segment- Real Estate | 17,014,03 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |
| 30,00,00,000 (Rupees Thirty Crores) divided into 3,00,00,000 (three crore) equity shares of | | c) Unallocated | - | 210.00 | 275.00 | 210.00 |
| | 0 00 | Total Assets | 17,614.63 | 17,642.61 | 17,830.10 | 17,642.61 |
| Rs. 10/- (Rupees ten only) each to Rs. 70,00,00,000 /- (Rupees seventy crore) divided into | 4 | Segment Liablities | | | | |
| 7,00,00,000 (seven crore) equity shares of Rs. 10/- (Rupees ten only) each,. The approval of the Mambers is so with in terms of Sections 13, 61, 64 and other applicable. | | a) Segment-NBFC | 2,005.07 | 2,030.10 | 2,152.52 | 2,030.10 |
| The approval of the assumption of colling in farme of Sections 33, K1, K8, and other applicable. | | h) Commont Dool Entate | | | | |

2.152.52 2,030.10 Total Liabilities The above financial results for the quarter ended on 30th June, 2022 have been reviewed by the audit Committee and approved by the board at their respective meetings held on

2.030.10

2,005.07

The Limited Review of the results has been completed by the Statutory Auditors of the Company As per Indian Accounting Standard (IndAS) 108 "Operating Segment", the Company's business. falls within a single business segment or there are two Reportable Segments in terms of Indian Accounting Standards (IndAS) 108 "Operating Segment" issued by the Institutes of Chartered

. Previous period figure has been regrouped/rearranged wherever necessary. For Aashrit Capital Limited

Nimish Arora Managing Director Date: 10.08.2022

QUANTUM BUILD-TECH LIMITED

Reg Office: 8-1-405/A/66, Dream Valley, Shaikpet, Hyderabad - 500 008 Tel: 040 23568766, 040 23568990, Website:www.quantumbuild.com E-mail: info@guantumbuild.com CIN:L72200TG1998PLC030071 STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022** (Rs. in Lakhs

YEAR

QUARTER ENDED

ENDED Particulars 31-03-2022 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Total Income from Operations (Net) 0.00 Net Profit /(Loss) for the period (before tax, (9.56)(12.63)(50.94)Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit /(Loss) for the period before tax (50.94) (12.63)(after Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit /(Loss) for the period after tax (12.63)(50.94)(after Exceptional and/or Extraordinary items #) Total Comprehensive Income for the period (Comprising (9.56) (12.63) (50.94 Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) **Equity Share Capital** 2506.56 2506.50 Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the 0.00 0.00 (2139.27) Audited Balance Sheet of the previous year) Earnings per share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations Basic: (0.04)(0.05)(0.20)2. Diluted: (0.04)(0.05)(0.20)Notes: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone Financial Results for the

Quarter ended 30th June, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022 are available on the website of BSE (www.bseindia.com) and the Company's website (www.guantumbuild.com) By Order of the Board

For Quantum Build-Tech Limited **G.**Satyanarayana Place: Hyderabad Managing Director DIN No.02051710 Date: 10-08-2022

> CHAMAK HOLDINGS LIMITED Regd. Office: 55-B, Rama Road Industrial Area, New Delhi - 110015, CIN: L5149DL1984PLC019684 Website: www.chamakholdings.com, Email: chamakholdings@gmail.com STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

> > Unaudited

| | 4 | | | |
|-----------|---|---------------------------------|--|------------------------|
| S. No. | Particulars | 3 months ended 30.06.2022 | Correspond- ing 3 months ended in the previous year 30.06.2021 | Previous Year ended |
| 1 | Total income from operations | 1,068.37 | 1,325.91 | 5,723.08 |
| 2 | Net profit for the year (before tax and exceptional items) | 4.65 | 36.97 | 89.07 |
| 3 | Net profit for the year before tax (after exceptional items) | 4.65 | 36.97 | 89.07 |
| 4 | Net profit for the year after tax and exceptional items | 9.32 | 24.67 | 57.88 |
| 5 | Total comprehensive income [comprising profitloss for the year after tax and other comprehensive (after tax)] | -38.12 | 72.46 | 141.72 |
| 6 | Paid up equity share capital (Face value of Re. 10/- each) | 324.50 | 324.50 | 324.50 |
| 7 | Earnings per share (face value of Rupee 10/- each) (not annualised) - Basic and Diluted earnings per share (in Rs.) | -1.17 | 2.23 | 4.37 |

The above Unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved

by the Board of Directors at its meeting held on 10.08.2022 The Statutory Auditors of the Company have carried out the Limited review of the above unaudited financial results pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and

Disclosures Requirements) Regulations, 2015, and have issued their Limited Review

In line with the provisions of Ind AS-108 'Operating Segments' as notified under the Companies (Ind AS) Rules, 2015, and as provided in section 133 of the Companies Act. 2013, the operations of the Company fall under the head "Trading of Plastic, Steel Srcaps

The Managing Director and Chief Financial Officer has certified that the financial results for the quarter ended June 30, 2022, do not contain any false or misleading statement or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading. The financial results of the Company for the quarter ended on June 30, 2022, are available

etc.", which is considered to be the only reportable segment by the management.

at the Company's website, www.chamakholdings.com and Bombay Stock Exchange website, www.bseindia.com and Metropolitan Stock Exchange website https://www.msei.in/ The figures for the previous period have been regrouped / rearranged, wherever necessary, to confirm to the current period's classification.

The outbreak of Covid-19 pandemic and consequent lockdown has severely impacted the operations of the Company since last week of March 2020. In order to ensure that business and activities of the Company continue, to the extent possible, and the effect of disruption is minimised, the Company has formulated a Work From Home Policy for all its employees and consultants. The Company is working on all plausible ways to come out from this

pandemic situation and conduct business operations in normal course By Order of the Board Chamak Holdings Limited

Anubhav Kathuria Place: New Delhi **Managing Director** DIN: 01198916 Date: 10.08.2022



Ms. Kanchan Gupta: 8373903438

SPS INTERNATIONAL LIMITED CIN: L74140HR1993PLC031900 Regd. Office: - Plot No. 15/1, Ground Floor, Main Mathura Road, Faridabad-121003 (Haryana) Email: info@spsintl.co.in | ⊕ website: www.spsintl.co.in

Contact No: 0129- 7117719

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 29th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Saturday, 10th September, 2022 at 3.00 PM IST through video conferencing ("VC") / other Audio- Visual Means ("OVAM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No.14/2020 and 17/2020 dated April 8,2020 and April 13, 2020 respectively, in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolution by companies under the Companies Act 2013 and the rules made thereunder on account of threat posed by Covid-19" General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No.19/2021 dated December 8, 2021, General Circular No.21/2021 date December 14, 2021 and General Circular No 02/2022 dated May 5, 2022 in relation to 'Clarification on holding of Annual General Meeting (AGM) through video conferencing or other Audio Visual Means (collectively referred to as "MCA Circular") permitted the holding of AGM through VC or OAVM without physical presence of the members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013, the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and Circular members SEBI/HO/CFD CMD01/CIR/P/2020/79,SEBI /HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13,2022 respectively issued by Securities Exchange Board of India (Collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report 2021-22 is being sent by electronic mode only to those Members whose e-mail address are registered with the Company / Depositories. The Company has also made available an email-id registration facility to its members through Beetal Financial and Computer Services Pvt Ltd (RTA) for the purpose of receiving all the communications including notice of meetings and Annual Report, etc. in electronic mode. Integrated Annual Report 2021-22 will be available on the website of the company at www.spsintl.co.in, BSE Limited at www.bseindia.com and CSDL at https://www.evoting.cdsl.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of determining the quorum under section 103 of the Companies Act 2013. The Instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM.

resolutions set out in the Notice of the AGM. Members have the option to cast their vote using the remote e-voting facility prior to the AGM or during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice of the AGM. Cut-off date for the purpose of E-voting is Saturday, 03rd September, 2022 and

beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date, shall only be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as E-voting during the AGM. The remote E-voting facility shall commence on Wednesday, 07th September, 2022 at 9.00 AM and shall end on Friday, 09th September, 2022 at 05.00 PM. E-voting portal shall be blocked after the aforesaid date and time for voting. Once the vote is cast by the member on any resolution, the member shall not be allowed to change it subsequently. Any person who acquires the shares after dispatch of the Notice of AGM and

by sending a request at helpdesk evoting@cdslindia.com, In case of any queries or clarification relating to E-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and E-voting manual available at www.evotingindia.com, under 'Help' section or write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com Notice is hereby given that pursuant to the provision of section 91 of the Companies

Act, 2013, it may be noted that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 05th September, 2022 to Saturday, 10th September, 2022 (both days inclusive) on account of AGM. By the order of the Board of directors

Saurabh Gupta Company Secretary & Compliance Officer M.No.- A 36879

FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER Ground Floor D-15 Prashant Vihar Rohini Sec-14 Delhi-110085

CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

PUBLIC NOTICE FOR GOLD AUCTION Notice is hereby given to the public in general and the account holders in

particular that e-auction of the pledged gold ornaments in the below mentioned account/s will be conducted by Federal Bank Ltd., on 13.09.2022 through online portal, https://gold.samil.in. Interested buyers may log on to the auction portal or contact the Bank at Ground Floor D-15 Prashant Vihar Robini Sec-14 Delhi-110085 for further information. In case e -auction is not materialised for any reason on the date mentioned above, with respect any or all items of the pledged ornaments, Bank shall be conducting private sale of the items on any subsequent date/s without further notice.

| omer Name | Loan Account No./Rupeek ID |
|-----------|----------------------------|
| UMAR | 14746100035106 / 2131601 |
| IAR | 14746100036351 / 2036786 |
| Н | 14746100036567 / 2084613 |
| RMA | 14746100035833 / 2092350 |
| MAR SINGH | 14746100035882 / 2159869 |
| TA | 14746100036484 / 2084849 |
| E . | 14746100035858 / 2118933 |
| MA | 14746100036559 / 2132650 |
| | MA Sd/- Authoris |

Place: New Delhi Rohini, Sector-14, New Delhi Branch NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015 Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982, Email Id.: investorcare@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

CIN: L65993DL1970PLC146414 **EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

| | 100 | | (₹ In I | akhs, except p | er share data) |
|------------------------|-----|---|---|----------------|-----------------------|
| | Sr. | | | Consolidated | 1 |
| | No. | 6 | For the Qua | rter Ended | For the Year Ended |
| om | | | 30 th June, 30 th June 2022 2021 | | 31" March, 2022 |
| (₹, Lakhs) | Ш | | Unaudited | Unaudited | Audited |
| Audited | 1 | Total income from operations | 761.14 | 1,577.25 | 9,307.38 |
| Previous Year ended | 2 | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 1,238.94 | 1,530.75 | 8,035.75 |
| 31.03.2022 | 3 | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 1,238.05 | 1,482.2 | 7,986.87 |
| 5,723.08 | 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 923.26 | 1,129 | 6,586.37 |
| 89.07 | 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period | (1,72,297.64) | 1,69,878.15 | 2,83,658.14 |
| 89.07 | Ш | (after tax) and Other Comprehensive | | | |
| 57.88 | | Income (after tax)] | The sin | 700 00 | |
| | 6 | Equity Share Capital | 513.62 | 513.62 | 513.62 |
| | 7 | Other Equity | | | 7,93,401.57 |
| 141.72 | 8 | Earning Per Share (of ₹10/- Each) | | | |
| | | 1. Basic: | 17.98 | 21.98 | 128.24 |

Notes :-

2. Diluted:

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com). Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI

17.98

21.98

128.24

| Particulars | | Standalone | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 120000000000000000000000000000000000000 | For the Qua | rter Ended | For the Year Ended |
| | 30" June, 2022 | 30" June, 2021 | 31" March 2022 |
| | Unaudited | Unaudited | Audited |
| Total income from operations | 468.09 | 1,287.87 | 6,814.95 |
| Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 386.77 | 1,243.23 | 7,016.34 |
| Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 386.77 | 1,243.23 | 7,016.34 |
| Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 281.49 | 955.13 | 5,636.11 |

3 The financial result of the Company for the quarter ended on June 30, 2022 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 10th August, 2022 and limited review of the same has been carried out by the statutory auditor of the Company.

Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. By order of the Board of Directors

For Nalwa Sons Investments Limited Rakesh Kumar Garg Place: Gurugram Executive Director & C.E.O.

These results have been prepared in accordance with the Companies(Indian Accounting

Date: 10" August, 2022 DIN: 00038580 reli&nce

CAPITAL

Extract from the Consolidated Unaudited Financial Results of Reliance Capital Limited for the guarter ended June 30, 2022.

(₹ in lakh, except per share data)

| SI. No. | Particulars | Quarter ended 30-Jun-22 Unaudited | Year ended 31-Mar-22 Audited | Quarter ended 30-Jun-21 Unaudited |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| 1. | Total Income from Operations | 3 60 439 | 19 30 132 | 4 44 752 |
| 2. | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item) | (45 766) | (7 90 780) | (94 876) |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item) | (49 140) | (8 05 474) | (1 00 605) |
| 4. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (82 466) | (8 23 138) | (1 02 047) |
| 5. | Equity Share Capital | 25 325 | 25 325 | 25 325 |
| 6. | Other Equity | | (20 07 309) | |
| 7. | Earnings Per Share (Basic & Diluted (Face Value of Rs.10/- each)) (not annualised) (i) Basic (₹) | (19.57) | (320.80) | (40.10) |
| | (ii) Diluted (₹) | (19.57) | (320.80) | (40.10) |

Capital Limited for the guarter ended June 30, 2022. (₹ in lakh)

| SI. No. | Particulars | Quarter ended 30-Jun-22 Unaudited | Year ended 31-Mar-22 Audited | Quarter ended 30-Jun-21 Unaudited |
|------------|----------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 1 | Total Income | 268 | 1 593 | 162 |
| 2 | Profit / (Loss) before tax | (21 475) | (1 10 580) | (33 324) |
| 3 | Profit / (Loss) after tax | (21 475) | (1 10 580) | (33 324) |

The above is an extract of the detailed format of the quarter ended financial results filed with the Stock Exchange(s) on August 9, 2022. under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Company's website i.e. www.reliancecapital.co.in and on the website of the Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

The Reserve Bank of India ("RBI") has superseded the board of directors of Reliance Capital Limited ("Company") and appointed Mr. Nageswara Rao Y as the Administrator of the Company in terms of Section 45-IE of the Reserve Bank of India Act, 1934 ("RBI Act"). The RBI, in exercise of powers conferred under Section 45-IE 5(a) of the RBI Act, had constituted a three-member Advisory Committee to assist the Administrator of the Company in discharge of his duties. Further, pursuant to an order dated December 6, 2021 of the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench ("NCLT"), Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") has been initiated against the Company as per the provisions

August 9, 2022

Reliance Capital Limited CIN: L65910MH1986PLC165645

Regd. Office: Kamala Mills Compound, Trade World B Wing, 7th Floor, S. B. Marg, Mumbai 400 013 Tel.: +91 22 4158 4000, Fax: +91 22 2490 5125

E-mail: rcl.investor@relianceada.com, Website: www.reliancecapital.co.in

financialexp.epapr.in

their shareholding, if any, in the Company This Corrigendum shall be available at the investor section of the Company's website

remain unchanged. By order of the Board of Directors For Oriental Trimex Limited

Place: New Delhi Registered Office Address: Date : August 10, 2022 26/25 Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060

Accountants of India. Place : Delhi

b) Segment- Real Estate

DIN: 01982312

-

Date: 11th August, 2022

Place: Faridabad

Remote e-voting facility is provided to Members to cast their votes on any of the

a person, whose name is recorded in the register of members or in the register of

holding shares as on the cut-off date, may obtain the required login ID and password

Extract from the Standalone Unaudited Financial Results of Reliance

of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code").

New Delhi

DECOROUS INVESTMENT & TRADING CO. LTD. Regd. Office: R-489, GF-B, New Rajinder Nagar, New Delhi – 110060 Tel No.: 9910003638, Email Id: decorous1982@gmail.com Website: www.ditco.in CIN: L67120DL1982PLC289090

Notice is given that 39TH ANNUAL GENERAL MEETING will be held on FRIDAY -23.09.2022 11:00 A.M. - via Webinar / Video-Conference (VC/OAVM), to transact Business(es) as set out in the NOTICE of AGM., E-Voting facility through NSDL [EVEN#'120781'] from 20.09.2022 - 09:00 A.M. to 22.09.2022 - 05:00 P.M., Shareholders can E-Vote via their NSDL login Register of Members & Share Transfer Books will remain Closed from 17.09.2022 to 25.09.2022 (both days inclusive). Due to COVID Pandemic and as per SEBI Circular Company will not be dispatching Annual Report (Printed Booklet) of FY 2021-22. Notice & Annual Report is available at Website of Company, BSE Ltd, RTA, NSDL for download. WEBINAR / VIDEO CONFERENCE facility shall be provided to all Shareholders, details thereof will be uploaded on Company's website & shared/ communicated to all concerned accordingly.

New Delhi 10.08.2022 RAJ KUMAR GUPTA WTD & CFO - DIN: 00074532

Members are requested to kindly Update their Contact details, Address, PAN, Email, Mobile, etc. for your company's updates, announcements, results, reports, correspondence, etc.

ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज लिमिटेड CIN: L74899DL1994PLC057507.

पंजी. कार्यालयः बी-09, 412, आईटीएल ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110088, वेबसाइट: www.brilliantportfolios.com, टेली: 011-45058963, ई-मेल: brilliantportfolios@gmail.com

| | | (शेयर डा | टा को छोड़कर | रु. लाखों में |
|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| विवरण | समाप्त तिमाही | समाप्त तिमाही | समाप्त तिमाही | समाप्त वर्ष |
| | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 30.06.2021 | 31.03.2022 |
| | (अनंकेक्षित) | (अंकेक्षित) | (अनंकेक्षित) | (अंकेक्षित) |
| प्रचालनों से कुल आय (सकल) | 61.89 | 61.22 | 56.46 | 232.96 |
| अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर तथा असाधारण मदों से पूर्व) | 12.96 | 4.40 | 10.43 | 42.33 |
| कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद) | 12.96 | 4.40 | 10.43 | 42.33 |
| कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद) | 9.65 | 3.41 | 7.85 | 31.88 |
| अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) | 9.65 | 3.41 | 7.85 | 31.88 |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 310.18 | 310.18 | 310.18 | 310.18 |
| आय प्रति शेयर (अंकित मूल्य 10/- रु.) प्रति का) | | 9 | | |
| (ए) मूल | 0.31 | 0.11 | 0.25 | 1.03 |
| (बी) तनुकृत | 0.31 | 0.11 | 0.25 | 1.03 |
| टिप्पणी: 1. 30 जून, 2022 को समाप्त तिमार्ह | | | मों की ऑडिट क | मेटी द्वारा समीक्ष |

की गई है और 09.08.2022 को आयोजित कंपनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए है। 2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण तथा अन्य प्रकृटीकरण अपेक्षांए) विनियमनों, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल की गई 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण शेयर बाजार की वेबसाईट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाईट www.brilliantportfolios.com पर उपलब्ध हैं। 3. पूर्व अवधि/वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने हेतु जहां जरूरी विचारा गया,

पुनः एकत्रित/पुनः व्यवस्थित किया गया है। हिते एवं कृते निदेशकों का बोर्ड ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 09.08.2022

DIN: 02682612

रवि जैन, प्रबंध निदेशक

अधिकृत प्राधिकारी

Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिंध बैंक शा.का.- पहाड्गंज, 5/1, डीबी गुप्ता रोड, पहाड्गंज, नई दिल्ली-110055

फोन: 011-23617738 ई-मेल: D0019@psb.co.in कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम ४(१) देखें]

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 (2002 का 54) के तहत पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार तथा जमानितयों (1) श्रीमती राजबाला गोयल पत्नी श्री नरेश कुमार गोयल और (2) श्री नरेश कुमार गोयल पुत्र माली राम गोयल (3) श्री सुमित कुमार शर्मा पुत्र श्री सतीश कुमार शर्मा से सूचना में उल्लिखित राशि रु. 2036826.36 (रुपये बीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ छब्बीस एवं छत्तीस पैसे मात्र) का कथित सुचना की तिथि की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना दिनांक 06.05.2022 निर्गत की थीं।

कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 5.8.2022 को 5.00 बजे अप. को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार 01.05.2022 तक राशि रु. 2036826.36 (रुपये बीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ छब्बीस एवं छत्तीस पैसे मात्र) तथा उस पर भावी लागत, ब्याज एवं व्ययों के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शा.का. पहाडगंज शाखा) के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभृत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। सम्पत्ति की अनुसूची

अचल सम्पत्ति सं. 1 का विवरण

अचल संपत्ति : बिल्ट अप तृतीय तल, छत के अधिकार सहित, माप 83.61 वर्ग मीटर का सम्पूर्ण भाग, ब्लॉक-के, गांव खुरेजी खडश के सामने गांव खुरेजी खास के सामने राधेश्याम मन्दिर, मेन मार्केट लक्ष्मी नगर, शाहदरा, दिल्ली-110092 में स्थित। बिक्री विलेख-पंजीकरण क्रमांक 6315, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 3437, पृष्ठ 88 से 95 पर दिनांक 19.05.2008 को कार्यालय उप पंजीयक शाहदरा, नई दिल्ली में। सम्पत्ति की सीमाएँ निम्नलिखित हैं :

उत्तर : सम्पत्ति सं. के-2 पश्चिम : रोड∕राधेश्याम मन्दिर

पूर्व : मेन रोड⁄सम्पत्ति का भाग दक्षिण : अन्य सम्पत्ति तिथि : 05.08.2022

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015 Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982,

Email Id.: investorcare@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana CIN: L65993DL1970PLC146414 **EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS**

| | | (₹ In I | akhs, except p | er share data | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Sr. | Particulars | Consolidated | | | | | | |
| Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 | | For the Qua | For the Year Ended | | | | | |
| | | 30 ⁺ June, 2022 | 30° June, 2021 | 31" March 2022 | | | | |
| | | Unaudited | Unaudited | Audited | | | | |
| 1 | Total income from operations | 761.14 | 1,577.25 | 9,307.38 | | | | |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 1,238.94 | 1,530.75 | 8,035.75 | | | | |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 1,238.05 | 1,482.2 | 7,986.87 | | | | |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 923.26 | 1,129 | 6,586.37 | | | | |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (1,72,297.64) | 1,69,878.15 | 2,83,658.14 | | | | |
| 6 | Equity Share Capital | 513.62 | 513.62 | 513.62 | | | | |
| 7 | Other Equity | | | 7,93,401.57 | | | | |
| 8 | Earning Per Share (of ₹10/- Each) | | | | | | | |
| | 1. Basic: | 17.98 | 21,98 | 128.24 | | | | |
| 1 | 2. Diluted: | 17.98 | 21.98 | 128.24 | | | | |

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com).

Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI

| Particulars | Standalone | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| For the control of th | For the Qua | For the Year Ended | | | | | | |
| | 30° June, 2022 | 30" June, 2021 | 31" March, 2022 | | | | | |
| | Unaudited | Unaudited | Audited | | | | | |
| Total income from operations | 468.09 | 1,287.87 | 6,814,95 | | | | | |
| Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 386.77 | 1,243.23 | 7,016.34 | | | | | |
| Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 386.77 | 1,243.23 | 7,016.34 | | | | | |
| Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 281.49 | 955,13 | 5,636.11 | | | | | |

The financial result of the Company for the guarter ended on June 30, 2022 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 10th August, 2022 and limited review of the same has been carried out by

These results have been prepared in accordance with the Companies(Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

the statutory auditor of the Company.

www.readwhere.com

By order of the Board of Directors For Nalwa Sons Investments Limited Rakesh Kumar Garg

Place: Gurugram Executive Director & C.E.O. Date: 10" August, 2022 DIN: 00038580



केन फिन होम्स लि.

डीडीए बिल्डिंग, पहली मंजिल, पारस सिनेमा के पास, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 दूरभाषः 011-26430236 / 7625079108 ईमेलः delhi@canfinhomes.com सीआईएनः L85110KA1987PLC008699

"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं 50) की धारा 13(2) के अधीन सेवा मे,

1. श्री अश्विनी पांडे पुत्र कमला कांत पांडेय (उधारकर्ता) फ्लैट नंबर—ए—116 / एस—1, साम का हिस्सा, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर—ए—116, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली—110095

2. श्रीमती ममता पांडे पत्नी अश्विनी पांडे (सह—उधारकर्ता), फ्लैट नंबर—ए—116 / एस— सामने का हिस्सा, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर-ए-116, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095 नंबर 1 और 2 के बीच आपने हमारी शाखा से श्री अश्विनी पांडे पुत्र कमला कांत पांडेय की निम्नलिखित संपत्ति को गिरवी रखने की जमानत पर आवास ऋण लिया है। रुपये राशि रु. 11.24.634 / − (ग्यारह लाख चौबीस हजार छह सौ चौंतीस रुपये मात्र) 02.08.2022 को कैन

बंधक रखी आस्ति का विवरण फ्लैट नंबर−ए−116∕एस−1, सामने का हिस्सा, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर−ए−116, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095, 41.80 वर्ग मीटर की दूरी संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं:-

फिन होम्स लिमिटेड को अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज व अन्य व्यय के साथ देय है।

उत्तर पश्चिमः 30' चौडी सडक, दक्षिण पूर्वः अन्य संपत्ति

दक्षिण पश्चिमः प्लॉट नं-115, **उत्तर पूर्वः** प्लॉट नंबर—117

आप को सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अधीन पंजीकृत मांग सूचना क्र**मांक 1 व 2 कं** प्रेषित की गई थी। परंतु सूचना बिना सुपूर्दगी वापस प्राप्त की जा चुकी है। अतएव अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त **कर्जदार/रों** के अंतिम ज्ञात पते के परिसर पर चस्पा करवा दी है अतः समाचार पत्र में यह सुचना प्रकाशित की जा रही है। चुंकि आप मंजुरी की शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं, अतः यह खाता एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 29.07.2022 को गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। एतद्द्वारा आपसे उपरोक्त राशि का भुगतान दिनांक 02.08.2022 से उस पर संविदा दर पर ब्याज सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट के अधीन उपरोक्त प्रतिभूति प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त कर्जदारों / गारंटरों का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के

हस्ता./-दिनांकः 10.08.2022 प्राधिकृत अधिकारी स्थानः नई दिल्ली केन फिन होम्स लिमिटेड

संबंध में. अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकष्ट किया जाता है।

HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi – 110 019 Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida-201 304, U.P., India Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369 Telephone: +91 11 26436336; Website: www.hcltech.com Email Id: Investors@hcl.com

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following equity share certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost and the Company will proceed to cancel the lost share certificate(s) and issue duplicate share(s) in dematerialized form in lieu thereof:

| Name of the Shareholder | Folio No. | Certificate No. | Distinctive No. | Face Value | No. of shares |
|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------|---------------|
| Santhosh | 0036520 | 294191 | 703047155 to 703047354 | Rs 2/- | 200 |
| Prassana | 94:50 (SES) P891 | 400331 | 1428312861 to 1428313260 | Principle. | 400 |

Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim(s) with the Company or its Registrar & Shares Transfer Agent, along with sufficient proof, within 15 days of publication of this notice, after which no claim(s) shall be entertained and the Company will proceed to issue duplicate shares in dematerialized form. The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificate(s). Any person dealing with the above share certificate(s) shall be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner whatsoever.

Our Transfer Agent Link Intime India Private Limited For HCL Technologies Limited (Unit: HCL Technologies Limited) C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Company Secretary Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra-400 083 E-mail: mt.helpdesk@linkintime.co.in

Date: August 10, 2022

Place: Noida (U.P.)

पुरुषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एल-७, मेन्ज फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, साउथ दिल्ली-110016 सीआईएन : L65910DL1988PLC033799, ई-मेल : purshottaminvestofin@gmail.com, दूरभाष नं. : 011-46067802, वेबसाइट : www.purshottaminvestofin.in, 30 जुन 2022 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (ईपीएस को छोडकर रु. लाख में

| क्र. | विवरण | समाप्त | तिमाही | समाप्त वर्ष |
|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| सं. | | 30.6.2022 अनंकेक्षित | 30.6.2021 अनंकेक्षित | 31.03.2022 अंकेक्षित |
| 1 | परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) | 304.07 | 366.99 | 5450.40 |
| 2 | अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) | 66.33 | 165.67 | 454.32 |
| 3 | कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) | 66.33 | 165.67 | 454.32 |
| 4 | कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) | 66.33 | 165.67 | 424.88 |
| 5 | अवधि के हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर से बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) | (342.60) | 165.67 | 50.93 |
| 6 | प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी | 628.36 | 628.36 | 628.36 |
| 7 | आरक्षित (पूर्व वर्ष अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) | 2445.93 | 2395.00 | 2445.93 |
| 8 | आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रु. में) मूल एवं तरल | 1.06 | 2.64 | 6.76 |
| 6 | | | | |

।. उपरोक्त सेबी (सुचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई अनंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.pursottaminvestofin.in पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 9.8.2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक

मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। 3. उसे चालू अवधि के वर्गीकरण/उद्घाटन के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि/वर्ष के

आंकड़े पुनर्समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

तिथि: 9.8.2022

बोर्ड के आदेश से

DIN: 00649786

Manish Anand

पर्षोत्तम इन्वेस्टोफिन लि. के लिये साहिब सिंह गसाई स्थानः दिल्ली प्रबंध निदेशक

RITA FINANCE AND LEASING LIMITED CIN: L67120DL1981PLC011741

Regd. Off.: 324 A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 E mail: ritaholdingsltd@gmail.com | Website: www.ritafinance.in | Tel: 011-27860681

Extracts of the Standalone Un-Audited Financial Results For the Quarter Ended June 30, 2022 (₹ in Lakh) Quarter Ended Year Ended 30/06/2022 31/03/2022 30/06/2021 31/03/2022 **Particulars** (Un-Audited) (Audited) (Un-Audited) (Audited) 40.03 44.66 107.64 267.18 Total income from operations Net Profit / (Loss) for the period (before) Tax, Exceptional &/or Extraordinary items) (21.51)100.74 155.66 36.22 3. Net Profit / (Loss) for the period before tax 155.66 (after Exceptional &/or Extraordinary items) 36.22 (21.51)100.74 4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional &/or Extraordinary items) (23.97)75.38 116.67 27.09 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (16.24)(54.85)(79.49)(39.61)6. Equity Share Capital 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 7. Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of 475.50 398.43 398.43 398.43 previous year) Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for

continuing and discontinued operations) -0.27 (0.24)0.75 1.17 Basic : 2. Diluted : 0.27 (0.24)0.75 1.17 1. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Quarterly Financial Results filed with the

Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Quarterly Financial Results are available on the Website of the Company i.e. (www.ritafinance.in)and website of the stock Exchange(s) www.msei.in and

The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 10th August, 2022. . The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-

AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind-as rules (As amended). For and on behalf of the Board of Directors of RITA FINANCE AND LEASING LIMITED

Pawan Kumar Mittal (Director) DIN: 00749265 केन फिन होस्स लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd डीडीए बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर पारस सिनेमा, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली—110019 फोनः 011-26435815, 2643023, 011-26487529, 7625079108 ईमेलः delhi@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेत् बिक्री सुचना, परिशिष्ट IV-A [नियम 9(1) के परंत्क देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेत बिक्री सचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसक कब्जा केन फिन होम्स लिमिटेड, नई दिल्ली, नेहरु प्लेस शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, की तरफ से दिनांक 30.08.2022 को "जैसी है जहाँ है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहाँ है" आधार पर डिमांड नोटिस की संबंधित तारीखों के अनुसार संबंधित उधारकर्ताओं और गारंटरों से कैन फिन होम्स लिमिटेड के ब्याज और अन्य शुल्क जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, वसुलने के लिए बेचा जाएगा।

| わ. | | माग | माग सूचना | आरक्षित | बयाना | कब्ज | सपात्त का विवरण |
|------|--|------------|--------------|--------------|-------------|--------|---|
| ਸ਼ਂ. | गारंटरों का नाम | सूचना की | के अनुसार | मूल्य | राशि | का | |
| | | तिथि | देय राशि | | | प्रकार | |
| 1. | श्रीमती रचना गुप्ता पत्नी अजय उप्रेती, | 08-11-2018 | ₹. | ₹. | ₹. | भौतिक | प्लैट नंबर–टीएफ–4, तीसरी मंजिल, रियर साइड एलएचएस |
| | श्री अजय उप्रेती पुत्र सीता राम उप्रेती, | | 28,67,519.00 | 24,80,000.00 | 2,48,000.00 |) | भाग, एमआईजी, प्लॉट नंबर –28, शक्ति खंड–III, इंदिरापुरम |
| | गारंटरः श्री हेम चन्द पुत्र श्याम लाल | | | | | | गाजियाबाद, पिन—201010, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 51 वर्ग मीटर |
| | | | | | | | पूर्वः लॉबी और अन्य फ्लैट, पश्चिमः अन्य संपत्ति |
| | | | | | | | उत्तरः फ्लैट नंबर टीएफ—3, दक्षिणः प्लॉट नंबर—27 |
| | | | 10 | G1 . 101 | - 3 | | (S |

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कैन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइंट **(www.canfinhomes.com)** में उपलब्ध कराया गया है। कृपया निम्नलिखित लिंक देर https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx दिनांकः 10.08.2022 स्थानः नेहरु प्लेस, नई दिल्ली हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, कैन फिन होम्स लिमिटेड

MEDICAMEN BIOTECH LTD

| | Particulars | 10 | Standa | alone | | | Consc | olidated | |
|------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| SI. No. | | Quarter Ended | | | Year Ended | Q | Year Ended | | |
| | | Un-Audited 30.06.2022 | Audited 31.03.2022 | Un-Adited 30.06.2021 | Audited 31.03.2022 | Un-Audited 30.06.2022 | Audited 31.03.2022 | Un-Audited 30.06.2021 | Audited 31.03.2022 |
| 1 | Total income from operations (net) | 3405.03 | 2309.14 | 2760.90 | 11716.53 | 3405.03 | 2309.14 | 2760.90 | 11716.53 |
| 2 | Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items) | 432.50 | 322.84 | 474.57 | 1810.35 | 432.50 | 321.91 | 474.57 | 1809.42 |
| 3 | Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items) | 432.50 | 322.84 | 474.57 | 1810.35 | 432.50 | 321.91 | 474.57 | 1809.42 |
| 4 | Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items) | 358.56 | 275.47 | 415.13 | 1490.64 | 358.56 | 274.54 | 415.13 | 1489.71 |
| 5 | Total comprehensive income for the period {Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)} | 358.56 | 275.47 | 415.13 | 1490.64 | 358.56 | 274,54 | 415.13 | 1489.71 |
| 6 | Equity Share Capital | 1221.66 | 1221.66 | 1221.66 | 1221.66 | 1221.66 | 1221,66 | 1221.66 | 1221.66 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) | - | | | | | | | |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation) | | | | | | | | |
| | Basic: | 2.94 | 2.25 | 3.40 | 12.20 | 2.94 | 2.25 | 3.40 | 12.19 |
| | Diluted: | 2.94 | 2.25 | 3.40 | 12.20 | 2.94 | 2.25 | 3.40 | 12.19 |

Notes:

The Un-audited financial results for the quarter ended have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 10.08.2022

This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. The company operates only in one business segment, viz. Pharmaceuticals formulations, hence segment reporting is not applicable

The Earning Per Share has been calculated as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 33 -Earning per Share

The results are not comparable on quarterly or yearly basis as company is regularly incurring capex and filling dossiers with regulatory

authorities which is visible from increased finance cost. The company has also recruited and placed senior human resources for the purpose of creating its own marketing network in francophone Africa. The company shall start reaping its benefits from next financial year. Limited review report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period. The Figures for the quarter ended 31 March 2022 is the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and for the

period upto the end of the third quarter of relevant financial year... The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary, to make them comparable,

For Medicamen Biotech Limited

LUMAX

Place: New Delhi

Date: 10.08.2022

ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरबंस भवन-॥, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046 वेबसाइटः www.lumaxworld.in/lumaxindustries, दूरमाष : +91 11 49857832 ईमेल : lumaxshare@lumaxmail.com, सीआईएन : L74899DL1981PLC012804

DK JAIN GROUP

Rahul Bishnoi

Chairman

30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिये समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (जब तक की वर्णित नहीं हो ₹ लाखों में)

| Y840) | समाप्त तिमाही | समाप्त वर्ष | समाप्त तिमाही 30 जून 2021 (अनंकेक्षित) | |
|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| विवरण | 30 जून 2022 (अनंकेक्षित) | 31 मार्च 2022 (अंकेक्षित) | | |
| परिचालन से कुल राजस्व | 51,193.53 | 175,131.10 | 31,400.07 | |
| कर पूर्व सामान्य गतिविधियों के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों से पहले) | 2,350.96 | 6,328.70 | (1,285.41) | |
| कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद) | 2,747.56 | 5,281.93 | (1,355.45) | |
| कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) | 1,982.12 | 4,072.47 | (990.49) | |
| कुल व्यापक आय/(हानि) | 1,878.81 | 3,785.45 | (931.31) | |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 934.77 | 934.77 | 934.77 | |
| प्रति शेयर अर्जन (रुपये 10 प्रति शेयर) (वार्षिक नहीं) मूल एवं तरल (रुपये में) : | 21.20 | 43.57 | (10.60) | |
| स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की मुख्य जानकारी इस प्रकार है: | | | | |
| परिचालन से कुल राजस्व | 51,193.53 | 175,131.10 | 31,400.07 | |
| कर पूर्व सामान्य गतिविधियों के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों से पहले) | 2,350.96 | 6,328.70 | (1,285.41) | |
| कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद) | 2,293.06 | 4,614.75 | (1,285.41) | |
| कुल व्यापक आय/(हानि) | 1,409.86 | 3,211.23 | (899.51) | |

स्थान : गुरुग्राम

तिथि : 10 अगस्त 2022

1. 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 10 अगस्त 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये। कंपनी के सांबंधिक ऑडिटर द्वारा परिणामों की समीक्षा की गई है।

2. उपर्युक्त सार सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात एनएसई (www.nseindia.com) और बीएसई (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.lumaxworld.in/lumaxindustries) पर भी उपलब्ध हैं।

> निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से ल्युमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

> > दीपक जैन

DIN: 00004972

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सोनल मर्केन्टाइल लिमिटेड CIN: L51221DL1985PLC022433

पंजीकत कार्यालय : 365. वर्धमान प्लाजा. तीसरी मंजिल. सेक्टर-3. रोहिणी. दिल्ली-110085. दरभाष : 011-49091417. Website: www.sonalmercantile.in, Email id: sonalmercantile@yahoo.in 30 जुन, 2022 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिये अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणाम का विवरण

(रुपये लाखों में

| विवरण | | स्टैण्ड | इएलोन | | समेकित | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| | स | माप्त तीन म | हीने | समाप्त वर्ष | समाप्त तीन महीने | | | समाप्त वर्ष |
| | 30.6.2022 (अनंकेक्षित) | 31.3.2022 (अंकेक्षित) | | 31.3.2022 (अंकेक्षित) | 30.6.2022 (अनंकेक्षित) | 31.3.2022 (अंकेक्षित) | | 31.3.2022 (अंकेक्षित) |
| प्रचालनों से कुल आय | 568.75 | 568.01 | 506.94 | 2084.46 | 568.75 | 568.01 | 506.94 | 2084.46 |
| कर एवं विशिष्ट मदों से पूर्व लाभ | 238.05 | 311.73 | 179.89 | 818.50 | 238.05 | 311.73 | 179.89 | 818.50 |
| कर से बाद लाभ (विशिष्ट मदों के बाद) | 178.13 | 231.53 | 134.61 | 609.10 | 178.13 | 231.53 | 134.61 | 609.10 |
| कुल व्यापक आय (कर से बाद लाभ/हानि तथा अन्य व्यापक आयकर कर से बाद से शामिल) | 178.13 | 231.53 | 134.61 | 609.10 | 462.66 | 1972.41 | 375.29 | 3113.99 |
| प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी | 1473.85 | 1473.85 | 1473.85 | 1473.85 | 1473.85 | 1473.85 | 1473.85 | 1473.85 |
| आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक का) | | | E . | 0 9 | | | | 8 : |
| मूल | 1.21 | 1.57 | 0.91 | 4.13 | 3.14 | 3.81 | 2.55 | 11.55 |
| तरल | 1.21 | 1.57 | 0.91 | 4.13 | 3.14 | 3.81 | 2.55 | 11.55 |

स्थानः नर्ड दिल्ली

तिथि: 10 अगस्त, 2022

1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के विस्तृत वित्तीय परिणामों के स्टैण्डएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार है। समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का सम्पर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट (www.sonalmercantile.in) तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

2. 30 जन, 2022 को समाप्त प्रथम तिमाही के उक्त स्टैण्डएलॉन तथा समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा उसके बाद 10 अगस्त, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकत किये गये।

सोनल मर्केन्टाइल लिमिटेड के लिये

विक्रम गोयल पूर्ण कालिक निदेशक DIN:00381115

Date: 10.08.2022

Place: New Delhi